

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28-02-2021 जनपद देवरिया

01.थाना रुद्रपुर द्वारा अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध शराब व शराब बनाने की उपकरण सहित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27.02.2021 को थाना प्रभारी रुद्रपुर मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम फतेहपुर से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम व पता 01.राहुल सिंह पुत्र जर्नादन सिंह सा0 फतेहपुर गिदहा थाना रुद्रपुर देवरिया 02.पिन्टू तिवारी पुत्र अज्ञात सा0 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली देवरिया बताया। मौके से अभियुक्त के पास से 5 गैलन कैमिकल प्रत्येक 5 लीटर, एक पैकिंग मशीन व लगभग 30 कि0ग्रा0 खाली रैपर ब्राण्ड रेडिको, 8 पीएम व 17 बोतल फेब स्काच विस्की प्रत्येक 500 एमएल केमिकल सेन्ट व तैयार शुदा नाजायज रेडिको 8 पीएम कुल 98 पाउच बरामद किया गया। इस प्रकार उपरोक्त बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

01. एक पैकिंग मशीन
02. 05 गैलन कैमिकल प्रत्येक 5 लीटर
03. 30 किग्रा खाली रैपर ब्राण्ड रेडिको 8 पीएम
04. 17 बोतल फेब स्काच विस्की प्रत्येक 500 एमएल
05. केमिकल सेन्ट
06. तैयार शुदा नाजायज रेडिको 8 पीएम कुल 98 पाउच

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल सिंह पुत्र जर्नादन सिंह सा0 फतेहपुर गिदहा थाना रुद्रपुर देवरिया
2. पिन्टू तिवारी पुत्र अज्ञात सा0 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. निरीक्षक जितेन्द्र कुमार टण्डन प्रभारी निरीक्षक थाना रुद्रपुर
02. उ0नि0 सुनील कुमार थाना रुद्रपुर
03. हे0का0 राजू पासवान थाना रुद्रपुर

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 27.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है

➡ थाना बनकटा से मु0अ0सं0 27/2021 धारा 363 भा0द0वि0 अभियुक्त- अर्जुन दूबे पुत्र योगेन्द्र दूबे सा0 बनकटिया थाना बनकटा देवरिया

➡ थाना लार से मु0अ0सं0 307/2021 धारा 354,352,504,506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, अभियुक्त- रामराज चौहान पुत्र बांकैलाल चौहान सा0 अखनपुरा थाना खुखुन्दू देवरिया

03-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 27.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 25 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 27.02.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 68 वाहनों से 62800 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।